

# नोवल कोरोना वायरस



अलवर शक्ति  
सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र



## क्या करें ....

प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें।

# नोवल कोरोना वायरस



**अलवर शक्ति**  
सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र



**क्या करें ....**

छींकते और खांसते समय अपना  
मुंह व नाक टिशू या रुमाल से  
ढकें ।



# नोवल कोरोना वायरस



**अलवर शक्ति**  
सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र



## क्या करें ....

अगर आपमें कोरोना वायरस के लक्षण है तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 पर कॉल करें ।

# नोवल कोरोना वायरस



**अलवर शक्ति**  
सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र



## क्या करें ....

अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क कपड़े का प्रयोग करें।



# नोवल कोरोना वायरस



**अलवर शक्ति**  
सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र



## क्या ना करें ....

यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो तो किसी के साथ संपर्क में ना आए।



**Protect  
From  
Virus**



**Fight  
Virus**



**Fight  
Virus**



**Fight  
Virus**



# CORONAVIRUS

Covid-19 or 2019-nCov



## What It Is?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

## How Sars-19-Cov Attacks Your Body?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.




## Incubation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

## Statistic

02 March 2020

● DEATH: 2.200 ● RECOVERED: 8.000



## Prevention

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua



Stay at home when you are sick



Don't eat raw food, thoroughly cook meat & egg.



Avoid close contact with people who are sick.



Avoid touching eyes, nose, & mouth with unwashed hands.



Wash your hands at least 20 seconds.



Clean & disinfect frequently touched object & surfaces.



Cover your cough or sneeze with a tissue.



Avoid Crowd Places.



## Symptoms

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua



Fever



Dry Cough



Sortness of Breath



Fatigue



Aching Muscle



# COVID-19

## PREVENTIONS




WASHING  
HAND



WEARING  
FACE MASK



EAT HOT  
FOODS



AVOID HAND  
CONTACT  
WITH FACE



NOT TRAVEL  
WHILE SICK



AVOID  
CONTACT  
WITH OTHERS





# 2019-nCoV



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION UL-LAMCO LABORIS NISI UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT.

## TRANSMISSION



AIR



HUMAN CONTACT



CONTAMINATED OBJECT

## SYMPTOMS



SNEEZE



FEVER



DRY COUGH



SHORTNESS OF BREATH

## PREVENTIONS



WASH YOUR HANDS



AVOID CONTACT WITH ANIMALS



WELL DONE COOKING



USE MASKS





# Coronavirus Precaution Tips



**1. Wear a mask**



**2. Wash your hands frequently**



**3. Cough etiquette**  
(Cover your mouth with sleeve or elbow.)